

## प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 18.05.2021

### लूट का मंगलसूत्र के साथ लुटेरा गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा द्वारा थाना गुलरिहा पर मु0अ0सं0 200/21 धारा 392 भादवि बनाम अपाची सवार तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत के अनावरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा कड़े निर्देश दिये गये थे।

दिनांक 07.04.2021 की रात्रि 09.30 बजे वादी श्री चन्द्रभूषण पटेल पुत्र भगवती पटेल निवासी टाउन एरिया गेट बैकुण्ठपुर थाना कोतवाली जिला महाराजगंज जो अपनी पत्नी श्रीमती विभारानी पटेल व बच्चे शौर्य का डाक्टर मृत्युन्जय बशरतपुर गोरखपुर के यहां से ईलाज कराकर वापस महाराजगंज घर जाते समय गुलरिहा बाजार में अपाची सवार तीन व्यक्तियों द्वारा पत्नी के गले से मंगलसूत्र व हैण्ड पर्स जिसमें मोबाइल सैमसंग कम्पनी का, चांदी की पायल, 1500 रुपये नगद, दवा व दवा की पर्ची थी, लूट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में हुआ था। घटना उपरोक्त जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा महोदय के नेतृत्व एवं निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा को मय टीम के साथ उपरोक्त घटना के अनावरण व घटना में शामिल अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। दिनांक 17.05.2021 को लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1-उमाशंकर निषाद पुत्र राम नगीना निषाद 2. बिल्लू उर्फ राम सुधारे निषाद पुत्र परमेश्वर निषाद 3. अम्बिका निषाद उर्फ झिन्नू उर्फ नाटे पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी जंगल तिनकोनिया नं0- 3 नर्सरी थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश में आया। लूट की मोबाइल तथा चाँदी की पायल के साथ अभियुक्तगण उमाशंकर निषाद व बिल्लू उर्फ राम सुधारे निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है लेकिन अभियुक्त अम्बिका निषाद उर्फ झिन्नू उर्फ नाटे पुत्र मोतीलाल निषाद उपरोक्त फरार चल रहा था। आज दिनांक 18.05.2021 समय 7.15 बजे रामपुर बुजुर्ग पेट्रोल पम्प के पास अभियुक्त अम्बिका निषाद उर्फ झिन्नू उर्फ नाटे पुत्र मोतीलाल निषाद को एक अदद लूटे गये मंगलसूत्र पीली धातु के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार घटना का सफल अनावरण कर लूट के माल को बरामद करते हुए लूट में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल खाना किया गया है।

#### गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:

अम्बिका निषाद उर्फ झिन्नू उर्फ नाटे पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी जंगल तिनकोनिया नं0- 3 नर्सरी थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

#### गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक

रामपुर बुजुर्ग पेट्रोल पम्प के पास, दिनांक 18.05.2021 समय 7.15 बजे प्रातः

#### अभियुक्त के पास से बरामदगी का विवरण

एक अदद मंगलसूत्र पीली धातु की (लूट)

#### अभियोग जिनमें गिरफ्तार किया गया-

मु0अ0सं0 200/21 धारा 392, 411 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम पद

1. प्र0नि0 श्री विनोद अग्निहोत्री थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुरा
2. नि0 अपराध श्री रामभवन यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुरा
3. उ0नि0 श्री रामबहादुर थाना गुलरिहा गोरखपुरा
4. उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
5. हे0का0 विनोद सिंह थाना गुलरिहा गोरखपुर
6. का0 रामसुरेश चौधरी थाना गुलरिहा गोरखपुर